

मेघ



वृष



मिथुन



**01 से 09 जून-** सप्ताह की शुरुआत में आप ऋणों का भुगतान करने का प्रयास करेंगे। शत्रुओं के साथ विवादों को निपटाने और रोगों की रोकथाम के लिए आप एहतियाती कदम उठाएंगे। कोई नया उद्यम शुरू करने के लिए समय प्रतिकूल है। सप्ताह मध्य की अवधि आपके दांपत्य जीवन के लिए सुखद बनी है। इस समय आपको वैवाहिक जीवन में आनंद का अनुभव होगा।

**10 से 16 जून-** सप्ताह की शुरुआत में आपको भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे। कार्य स्थल पर आप अधिकार, पद और स्थिति में वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ किसी यात्रा पर जाने की संभावना है। छोटे भाई-बहनों का सहयोग, नैतिक समर्थन और मार्गदर्शन आपको अच्छी आय पाने में सहयोग करेगा।

**17 से 23 जून-** आपकी मानसिक स्थिति उत्तम रहेगी जिससे आपके सामाजिक जीवन में सुधार होगा। आपकी वित्तीय स्थिति और धन हानि का प्रभाव बढ़ेगा। परन्तु सामाजिक जीवन में आपको मनोनुकूल सफलता नहीं मिलेगी फिर भी आपको आत्म विश्वास बनाए रहना होगा। आप **कार्य-व्यापार वृद्धि दीक्षा** ग्रहण करें, जिससे धन-आय की वृद्धि होगी।

न्यौ. ₹ 1500/-

**24 से 30 जून-** सप्ताह की शुरुआत में माँ के स्वास्थ्य की कमी आपके मिजाज में बदलाव कर तनावपूर्ण बना सकती है। आपके वाहनों में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इस समय आप अपने घर के कुछ घरेलू मुद्दों के कारण आप मानसिक तनाव अनुभव करेंगे, संयम और धैर्य से काम करें।

शुभ तिथियां: 02, 05, 17, 25

**01 से 09 जून-** सप्ताह के शुरुआत में आप अपनी संतान के कल्याण और भविष्य को सुरक्षित करने हेतु वसीयत संबंधित योजनाओं पर विचार करेंगे। आपको शारीरिक कमजोरी थकान और कुछ अनावश्यक तनाव की शिकायत हो सकती है। सप्ताह के अंत में भावनात्मक सम्बन्धों के बेहतर होने से आप बहुत खुश रहेंगे। साझेदारी उपक्रम में कार्य आरम्भ करने के लिए यह समय उपयुक्त बना हुआ है।

**10 से 16 जून-** सप्ताह की शुरुआत में माता-पिता के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां या रिश्ते में कुछ कड़वाहट होने के कारण आपको तनाव हो सकता है। इस समय जहां तक संभव हो धैर्य बनाएं रखें, इस अवधि के दौरान आप सरकारी वरिष्ठ पदाधिकारी और उच्च स्तर के व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त की उम्मीद कर सकते हैं।

**17 से 23 जून-** यह अवधि आपके मानसिक स्थिति और सेहत के लिए अनुकूल नहीं है। सप्ताह के मध्य में आप मानसिक-शारीरिक व्याधि से पीड़ित हो सकते हैं, आपको पेट, सिर दर्द व कूल्हे से सम्बन्धित जटिल बीमारी हो सकती है बेहतर होगा आप **रोग कष्ट निवारण धन्वन्तरी दीक्षा** ग्रहण करें, जिससे आपके मानसिक-शारीरिक क्षमता में वृद्धि होगी

न्यौ. ₹ 1500/-

**24 से 30 जून-** सप्ताह की शुरुआत में आप सामाजिक कल्याण के कार्यों में सक्रिय रूप से भागीदार रहेंगे। आप अपने परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों में पसंदीदा व्यक्ति के रूप में उभरेंगे। आपका स्वास्थ्य और आत्म विश्वास बना रहेगा। शेरों में निवेश करने के लिए सही समय है। अपने परिजनों, मित्रों और बच्चों के साथ संबंधों को सुलझाने का सही समय है।

शुभ तिथियां: 04, 10, 17, 28

**01 से 09 जून-** सप्ताह की शुरुआत आपकी मानसिक स्थिति, प्रसन्नता, सेहत, घरेलू मुद्दों के लिए अनुकूल नहीं है। आप अपने काम पर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पायेंगे। बढ़े हुए खर्च भी आपकी चिंता बढ़ाएंगे। शेयर बाजार में हानि की संभावनाएं हैं। अतः इन सभी कार्य को स्थगित कर दें तो आपके लिए अच्छा होगा। सप्ताह के अन्त में आप सभी मुद्दों का समाधान निकालने में सफल रहेंगे।

**10 से 16 जून-** सप्ताह के आरम्भ में आपके वैवाहिक जीवन में आनंद रहेगा। जीवन साथी की सलाह आपके लिए अच्छी साबित होगी और आप खर्चों को नियंत्रित कर पायेंगे। सप्ताह के मध्य में निराशा का अनुभव होगा। दैनिक कार्यों में धन की कमी रहने से कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

**17 से 23 जून-** सप्ताह का आरम्भ आपकी सेहत के लिए शुभ नहीं रहेगा। परिस्थितियां आपके विपरीत हैं। आय में वृद्धि और व्यापार में लाभ होगा। इस समय आपको धैर्य बनाए रखना होगा। सप्ताहांत के दिनों में मानसिक शांति, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। आप पूर्ण उत्साह, ऊर्जा और आत्म विश्वास से भरे रहेंगे। यह आपकी कार्य कुशलता में वृद्धि करेगा। इस अवधि में आप **मनोकामना इच्छापूर्ति दीक्षा** ग्रहण करें।

न्यौ. ₹ 1500/-

**24 से 30 जून-** सप्ताह आरम्भ में किसी अच्छी खबर से तनाव कम होगा। धन के मार्ग खुलेंगे वित्तीय स्थिति अच्छी होगी। आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। इस अवधि में आपको कुछ थकान, मानसिक चिंता हो सकती है। इस समय वाहनों की मरम्मत करने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा घर की साफ-सफाई का ख्याल रखें।

शुभ तिथियां: 02, 09, 21, 30



कक



सिंह



कन्या

**01 से 09 जून-** सप्ताह का शुरुआती समय समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अनुकूल है। कठिन समय में लोगों से आपको मदद मिलेगी। भाई-बहनों का प्यार आपको मजबूती देगा। आपका घर और वाहन आदि पर धन खर्च होगा। कुछ मानसिक तनाव होने की संभावना है। संभव हो तो नया उद्यम शुरू करने से बचें। आपके बच्चे आपके लिये अच्छी खबर ला सकते हैं।

**10 से 16 जून-** सप्ताह आरम्भ शत्रु, मुकदमेबाजी और ऋण से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए अत्यधिक लाभकारी होगा। कार्य क्षेत्र में आपको वांछित प्रदर्शन करने पर सफलता मिलेगी। आप अधिक आक्रामक रहेंगे। सामाजिक और व्यापारिक गतिविधियों के लिए यह समय उत्कृष्ट रहेगा। सप्ताह के मध्य दिनों में संकेत मिल रहे हैं कि आपको कुछ घरेलू मुद्दों की वजह से मानसिक अशांति परेशान कर सकती है। **रोग निवारण धनवन्तरी दीक्षा** ग्रहण करें। **न्यौ. ₹ 1500/-**

**17 से 23 जून-** सप्ताह के शुरु के दिनों में पदोन्नति हस्तांतरण की संभावनाओं का संकेत है। अतिरिक्त जिम्मेदारियां होगी। सप्ताह के शेष दिनों में ग्रहों की स्थिति के प्रभाव से घाटा, धन का अनावश्यक व्यय हो सकता है। इस नकारात्मक स्थिति से बाहर निकलने के लिए धैर्य न खोयें आत्म विश्वास बनाए रखें।

**24 से 30 जून-** सप्ताह के शुरु की अवधि में सुस्ती, शारीरिक कमजोरी, आत्म विश्वास और ऊर्जा की कमी रहेगी। सप्ताह के मध्य में परिवार का सामंजस्य बने रहने से आपमें आत्म विश्वास की वापसी होगी। आप जीवन की शांति का आनंद लेंगे। सप्ताह के शेष दिनों में मित्रों, भाई रिश्तेदारों के साथ संबंध अच्छे होंगे।

शुभ तिथियां: 07, 15, 18, 22

**01 से 09 जून-** सप्ताह के शुरु में जीवनसाथी का समर्थन प्राप्त होगा। पारिवारिक मुद्दें सुलझेगें। आपकी बचत क्षमता में भी पर्याप्त वृद्धि होगी। सप्ताह के मध्य के दिन व्यापारिक साझेदारी, श्रेष्ठ व्यक्तित्व पूर्ण कार्यकर्ताओं से जुड़ने से भविष्य में लाभ रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी।

**10 से 16 जून-** सप्ताह के आरम्भ में आपके साझेदार आपके लिए सहयोगी साबित होंगे। इन दिनों में आप अपनी ऊर्जा का व्यय ऋण, रोग और कानूनी विवादों से संबंधित मुद्दों से निपटने में करेंगे। वित्तीय लाभ, परिवार में सामंजस्य, कार्य क्षेत्र में प्रगति के साथ खुशी, आत्म विश्वास और भाग्य का पक्ष लेकर आएगा। मध्य भाग में अपेक्षित उत्साह और आत्म विश्वास की आप में कमी रहेगी। सप्ताह के शेष दिनों में वाहन और घर के रख-रखाव से संबंधित मामलों में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है।

**17 से 23 जून-** इस सप्ताह आप नियमित रूप से धार्मिक कार्य में शामिल होंगे। उत्कृष्ट कार्यों के लिए आपके उच्चधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी व पदोन्नति में कोई समस्या हो सकती है। इस हेतु आप **महाकाली दीक्षा** ग्रहण कर काली पूजा सम्पन्न करने से हानिकारक ग्रहों का प्रभाव शांत होगा।

**न्यौ. ₹ 1500/-**

**24 से 30 जून-** यह सप्ताह आपके महत्वपूर्ण कार्यों के लिये अनुकूल नहीं है। आप परेशान होने से बचें। इस समय आप आय वृद्धि के नये साधन प्राप्त करेंगे। सप्ताह के मध्य में परिवार के सभी सदस्यों की जरूरतें पूरी होंगी धन का कोई अभाव नहीं होगा व सभी इच्छयें पूरी होंगी।

शुभ तिथियां: 01, 20, 23, 28

**01 से 09 जून-** सप्ताह के शुरु के दिन आपका आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, उत्साह कार्य कुशलता उच्च स्तर पर होगी। आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व से लोग आपका सम्मान करेंगे। सप्ताह के मध्य परिवार से संबंधित मुद्दों से परेशानी हो सकती है। अचानक धन का प्रवाह होने से परिवार में खुशी का महौल रहेगा। आपको रिश्तेदारों, दोस्तों और भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा।

**10 से 16 जून-** सप्ताह की शुरुआत में आपको पेट सम्बन्धी विकार हो सकते हैं। अपनी माता की सेहत की चिंता रहेगी कुछ घरेलू मुद्दों से मानसिक परेशानी रहेगी। सप्ताह के अंतिम दिनों में शत्रु, ऋण और रोग से संबंधित मुद्दों से परेशान रहेंगे। प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ बैठना अच्छा होगा। स्वास्थ्य, आयु, शत्रुहंता के लिये **चण्ड मुण्ड धारिणी छिन्नमस्ता दीक्षा** ग्रहण करें। **न्यौ. ₹ 1500/-**

**17 से 23 जून-** सप्ताह की शुरुआत में आपको संतान, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ अनावश्यक चिंताओं से राहत मिलेगी। सप्ताह के मध्य दिनों में संभव हो तो कार्यों को टालना लाभकारी रहेगा। इस समय यात्रा आपके तनावों से राहत देगी और दांपत्य जीवन में भी अनुकूलता होगी। संबंधों को बेहतर करने के लिए यह एक अच्छा समय है। सप्ताह का अंतिम समय आपके जीवन के लिए उत्कृष्ट साबित होगा।

**24 से 30 जून-** सप्ताह के शुरुआत में ग्रह स्थिति आपके लिए असहनीय, निराशापूर्ण और हताशापूर्ण बनी हुई है। सप्ताह के शेष दिन आपके माता-पिता की सेहत, दोस्तों और ससुराल पक्ष के लिए अनुकूल रहेंगे। इसके साथ ही आपके आत्मविश्वास की कमी भी दूर होगी।

शुभ तिथियां: 05, 09, 13, 27

तुला



वृश्चिक



धनु



**01 से 09 जून-** सप्ताह के शुरु के दिन आपके भाई-बहन और दोस्तों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। कुछ व्यावसायिक गतिविधियों में दिलचस्पी लेने की योजना बना सकते हैं। नये कार्यों को शुरू करने के लिए समय शुभ नहीं हैं। सप्ताह का शेष समय आपके लिए शुभ बना हुआ है।

**10 से 16 जून-** सप्ताह के आरम्भ में कार्यों के मध्य अवांछित अवरोध के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो पायेंगे, इससे आपमें निराशा और हताशा की स्थिति रहेगी। सप्ताह के मध्य भाग में दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता नहीं रहेगी। अंतिम भाग में परिवार में प्रसन्नता और शांति का माहौल रहेगा।

**17 से 23 जून-** सप्ताह की शुरुआत में आपका अपने पैतृक स्थान और मां के साथ जुड़ाव रहेगा। इस समय आपके अंदर आलस्य की बढ़ोत्तरी हो सकती है। कुछ मानसिक तनाव भी होगा। सप्ताह का मध्य भाग व्यावसायिक जीवन और आय प्राप्ति के लिए शुभ रहेगा। सप्ताह का शेष भाग संकेत दे रहा है कि स्वास्थ्य समस्याओं, ऋण और मुकदमेबाजी से संबंधित मुद्दों को सुलझाने में पैसा खर्च होगा।

**24 से 30 जून-** सप्ताह के शुरुआत में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। यह पेशेवर मोर्चे पर आगे रखेगा। सरकारी और प्राधिकरण क्षेत्रों में यह आपको सम्मान देगी। सप्ताह के मध्य भाग में कुछ आपके आस-पास के लोग आपसे जलन कर सकते हैं। आपके खिलाफ षडयंत्र करने की क्रिया करेंगे। सप्ताह के अन्तिम भाग में कुछ समस्याओं के कारण मन की अशांति, वित्तीय घाटा होगा। इस हेतु **महाकाल असुर वृत्ति निवारण शक्ति दीक्षा** ग्रहण करें।

न्यौ. ₹ 1500/-

शुभ तिथियां: 05, 14, 19, 27

**01 से 09 जून-** सप्ताह के प्रारम्भ में निश्चित रूप से आपकी आय में वृद्धि होगी। आपके लिए आय का नया स्रोत उत्पन्न होगा। सप्ताह के मध्य भाग में आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता के लिए अनुकूल नहीं है। आप अपने कौशल और व्यक्तित्व विकास के विषयों पर धन, खर्च करेंगे।

**10 से 16 जून-** सप्ताह के शुरुआत में आपकी सारी ऊर्जा, धन, निवेश और जीवन शैली पारिवारिक जीवन की एकता, अखंडता और परिवार की समृद्धि हेतु **सूर्य तेजस्विता प्राप्ति दीक्षा** ग्रहण करें। सप्ताह के शेष भाग में कुछ मानसिक तनाव हो सकता है। न्यौ. ₹ 1500/-

**17 से 23 जून-** सप्ताह के आरम्भ की अवधि सामाजिक गतिविधियों के लिए शुभ रहेगी। सप्ताह के मध्य में संकेत मिल रहे हैं कि माता के बेहतर समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद से आय क्षेत्रों में भी बढ़ोत्तरी होगी। परन्तु ऋण और कानूनी मुद्दे व्यर्थ के दबाव का कारण बन सकते हैं। सप्ताह का अंतिम भाग में धन लक्ष्मी की वृद्धि होगी। इसके साथ ही जीवन साथी के साथ गलतफहमी समाप्त होगी।

**24 से 30 जून-** सप्ताह आरम्भ में आपकी सेहत और कार्यों की उपलब्धियों के लिए बेहतर रहेगा। आप अपने खर्च और प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रबंधन करने की योजना बनाएंगे। इस सप्ताह के मध्य में आप स्वयं को तरोताजा करने के लिए किसी यात्रा पर जा सकते हैं। भाग्य और जीवन साथी की सलाह अधिक लाभ कमाने में आपकी मदद करेगी। सप्ताह के शेष दिनों में आपके स्वास्थ्य, खुशी, आत्म विश्वास की वृद्धि होगी। आपकी प्रतिष्ठा और कार्य कुशलता के लिए शुभ रहेंगे।

शुभ तिथियां: 01, 05, 18, 29

**01 से 09 जून-** सप्ताह आरम्भ में आपके कार्यों में सुधार होगा। कार्यों में शीघ्र प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। आपके करियर के विकास के लिए फायदेमंद साबित होंगे। सप्ताह के मध्य में सेहत में कमी होने के संकेत मिल रहे हैं। आप के सफलता के मार्ग में बाधाएं आ सकती हैं। सप्ताह के अंतिम भाग आपके व्यापार, आय में वृद्धि, इच्छाओं की पूर्ति, प्रसन्नता की वृद्धि के लिए **कालसर्प दोष निवारण दीक्षा** ग्रहण करें। न्यौ. ₹ 1500/-

**10 से 16 जून-** सप्ताह के आरम्भ में संतान की चिंता रहेगी। रिश्तेदारों से कटु स्थितियों की प्राप्ति होगी। अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रण में रखें। अतः अपने आपको संयमशील रखते हुये संतान की आयु वृद्धि के लिये संतान को **नजर दोष निवारण लॉकेट** धारण करायें।

**17 से 23 जून-** सप्ताह आरम्भ में संकेत मिल रहे हैं कि पारिवारिक दायित्वों का आप कुशलता से निर्वाह करेंगे। सप्ताह के मध्य में आपको दोस्तों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलने से आनंद अनुभव होगा। सप्ताह के अंतिम भाग में सामाजिक गतिविधियों में आश्चर्यजनक रूप से आपकी बड़ी सक्रियता को दर्शा रहा है।

**24 से 30 जून-** सप्ताह आरम्भ में कुछ अप्रत्याशित स्रोत से अचानक वित्तीय लाभ प्राप्त हो सकते हैं। उसे संयोजित रखें, जिसके कारण से पारिवारिक गृहस्थ जीवन श्रेष्ठमय बन सके। सप्ताह के मध्य में स्वास्थ्य परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। अपने खान-पान पर नियंत्रण रखें। जिससे यह स्थिति शीघ्र ही ठीक हो जायेगी। इसके अलावा व्यवसाय से जुड़ी यात्राएं किसी सामाजिक सभा को संबोधित करने के अवसर बन सकते हैं।

शुभ तिथियां: 08, 11, 20, 26



मकर



कुंभ



मीन

**01 से 09 जून-** सप्ताह की शुरुआत में आपको सेहत के प्रति सतर्क रहना होगा, सप्ताह के मध्य में साधना और गुरुओं से आशीर्वाद प्राप्त के लिए यह एक लाभकारी समय है। परिवार के सभी सदस्यों के बीच बेहतर सामंजस्य रहेगा। विशेष रूप से जीवनसाथी के साथ। लेकिन सप्ताह के शेष भाग में कुछ अवांछित बाधाओं के कारण कार्यों में देरी का सामना करना पड़ सकता है।

**10 से 16 जून-** सप्ताह आरम्भ में आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि और भाग्य का सहयोग प्राप्त होने के प्रबल संकेत प्राप्त हो रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को प्रभावित होने से बचाने के लिए धैर्य न खोयें। सप्ताह के मध्य आप एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरेंगे, लोगों से आपको प्रशंसा और सम्मान दोनों की प्राप्ति होगी। आप परिवार कल्याण के कार्यों को बेहतर जिम्मेदारी से पूरा करेंगे।

**17 से 23 जून-** सप्ताह आरम्भ में आपके मन पर अतिरिक्त दबाव घरेलू सुखों और पारिवारिक सदस्यों में आपसी स्नेह की कमी करेगा। मां और जीवनसाथी के साथ संबंध उत्कृष्ट रहेंगे। सप्ताह के मध्य में वित्तीय स्थिति प्रबल, मानसिक शांति और परिवार में सद्भाव की बेहतर संभावनाएं हैं। सप्ताह के शेष भाग में परिजनों और सामाजिक जीवन में संबंध बेहतर होंगे।

**24 से 30 जून-** सप्ताह आरम्भ में भाग्य और जीवन साथी की सलाह आपको अधिक लाभ कमाने में सहयोग करेंगी। भागीदार भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। सप्ताह के शेष भाग में शेयर बाजार में हानि की संभावनाएं बन रही हैं। अतः इन योजनाओं को स्थगित करना ही हितकारी रहेगा। आप **कार्य-व्यापार वृद्धि दीक्षा** ग्रहण करें।

न्यौ. ₹ 1500/-

शुभ तिथियां: 03, 17, 24, 29

**01 से 09 जून-** सप्ताह के शुरु की अवधि भावनात्मक सम्बन्धों के लिए विशेष रूप से अनुकूल बनी हुई है। महत्वपूर्ण कार्यों में बाधा आयेगी। वांछित परिणाम प्राप्त करने में कड़ी मेहनत करनी होगी। कोई नया काम शुरू करने के लिए समय शुभ नहीं है। सप्ताह के अंतिम भाग में कार्य क्षेत्र में अधिक कौशल और विशेषज्ञता का प्रयोग करने से ही कार्यों में प्रगति होगी।

**10 से 16 जून-** सप्ताह की शुरुआत आपकी प्रसन्नता और कार्य सिद्धियों के लिए शुभ संकेत है। आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। सप्ताह का अंतिम भाग आपके कार्यों, और प्रगति के लिए अनुकूल है। आप **अक्षय धनदा शुभ-लाभ प्राप्ति दीक्षा** ग्रहण करें, जिससे जीवन में मंगलमय चेतना का संचार होगा।

न्यौ. ₹ 1500/-

**17 से 23 जून-** सप्ताह की शुरुआत आपके स्वास्थ्य, खुशी, आत्म विश्वास और धैर्य के लिए अनुकूल रहेगा। महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा करना उचित होगा। सप्ताह के मध्य में भाग्य के मार्ग में बाधाएं बनी रहेंगी। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने से अतंतः सफलता आपके साथ रहेगी। सप्ताह का अंतिम भाग परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों को मजबूत करेगा। शेयर बाजार और निवेश करने की लिए अनुकूल समय है।

**24 से 30 जून-** यह पूरा सप्ताह मिला-जुला है। सभी गतिविधियों में समानता दिखाई देगी। साथ ही यह सप्ताह पारिवारिक, सामाजिक विषयों के हिसाब से अनुकूल है। साथ ही यह समय परिवार के जीवन और प्रतिष्ठा के लिए पूरी तरह से शुभ होगा। सप्ताह का अंतिम भाग आपके स्वास्थ्य, खुशी और आत्मविश्वास के लिये शुभ नहीं है।

शुभ तिथियां: 11, 14, 22, 28

**01 से 09 जून-** सप्ताह के शुरु में आपको परिवार में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए स्वयं पहल करनी होगी। सप्ताह के मध्य भाग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। आप **मानसिक-शारीरिक आरोग्यता वृद्धि दीक्षा** ग्रहण करें। जिससे आप अधिक सक्रिय होकर अपने कार्य सम्पन्न कर सकेंगे।

न्यौ. ₹ 1500/-

**10 से 16 जून-** सप्ताह के शुरुआत में आपके वैवाहिक जीवन के आनंद, प्रेम वृद्धि, परिवार में आपसी सद्भाव में सुधार होगा। अविवाहित लोगों के विवाह संबंधी योजनाओं पर विचार-विमर्श होगा। सप्ताह के मध्य सामाजिक जीवन में मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। तरक्की और सफलता की खबर मिल सकती है। इस अवधि में आपकी आय वृद्धि व इच्छाओं की पूर्ति होगी।

**17 से 23 अप्रैल-** सप्ताह की शुरुआत में आपको वित्तीय लाभ, आय के नए स्रोतों के सृजन की संभावना बन रही है। सप्ताह के मध्य में आपके परिजनों और सामाजिक जीवन में संबंध पहले से बेहतर होंगे। सप्ताह के शेष में आपको मानसिक शांति और प्रसन्नता का अनुभव होगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

**24 से 30 जून-** सप्ताह की शुरुआत में निवेश, शेयर, बाजार, मनोरंजन, व्यापार प्रेम जीवन के लिए अनुकूल है। बच्चों के भविष्य योजना बनाने के निर्णय इस समय लेना सही रहेगा। संपत्ति से जुड़े कानूनी मुद्दों के कारण आपको तनाव हो सकता है। अविवाहित लोगो के लिए यह अत्यंत शुभ समय हैं। नया व्यवसाय शुरू करने के निर्णय लेने के लिए यही सही समय है। किसी नये साझेदारी उपक्रम में शामिल होने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

शुभ तिथियां: 08, 11, 17, 23